



फर्रुखाबाद। संवाददाता

आवकारी टीम के साथ पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडा फोड़ किया। तीन अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में स्प्रिंट के साथ शराब बरामद की गयी है। शराब चुनाव के लिए तैयार हो रही थी।

अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप ने बताया कि शराब की अवैध फैक्ट्री के साथ आदित्य दुबे उर्फ सचिन निवासी आवास विकास छिबरामऊ कन्नौज, गोरेलाल निवासी पेरी गढ़िया, कमालगंज, शिव पाल जाटव निवासी बरतरिया मोहल्ला, छिबरामऊ, कन्नौज को गिरफ्तार किया गया है। 80 प्लास्टिक की जरीकैनों में कुल 3200 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिंट व 45 देशी शराब के पउए और 760 खाली देशी शराब के पउए के अलावा ढक्कन के अलावा बब्बरशेर मिरिंडा ब्रांड के 262 लेबल व एक प्लास्टिक की बाल्टी के अलावा रंगीन तरल पदार्थ बरामद हुआ है। तीन अदद मोबाइल भी इन लोगों के पास से मिले हैं। उन्होने बताया कि आवकारी निरीक्षक टीम द्वारा बताया गया है कि इनसे लगभग 58 हजार क्वार्टर तैयार किए जा सकते हैं। जिसकी निहित राजस्व लगभग 40 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनका सरगना बंटी जो नोएडा में रहता है वह भाग गया है। उसकी भी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में यह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कार्रवाई में जहानगंज थानाध्यक्ष देवेश कुमार, उपनिरीक्षक खेमपाल सिंह, सिपाही पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, कृष्णपाल, अजय तेवतिया के अलावा आवकारी टीम के निरीक्षक नीरज तिवार, राजेश चौबे, सचिन त्रिपाठी भी साथ में रहे। एसओजी टीम के अलावा सर्विलांस टीम ने भी सहयोग किया। उन्होने बताया कि बहोरिकपुर मोहम्मदाबाद मार्ग पर खाली पड़े भवनमें अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था। मुखबिर की सूचना प पुलिस पहुंची थी। जब पुलिस की टीम घर में प्रवेश कर गयी तो वहां तीन लोग मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर खाली देशी शराब के पउए भर रहे थे। घेराबंदी करके टीम ने इन लोगों को दबोच लिया।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/farrukhabad-kannauj/story-fake-liquor-factory-caught-three-arrested-5609524.html>